



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 30.07.2022

1-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा घर से ज्वैलरी चोरी करने वाला नौकर (ड्राईवर) गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई ज्वैलरी बरामद।

दिनांक 30/07/2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा घर से ज्वैलरी चोरी करने वाला नौकर (ड्राईवर) अंकित कुमार पुत्र पीताम्बर निवासी ग्राम गिझौड़, सेक्टर-53, नोएडा को थाना क्षेत्र के कंचन जंगा मार्किट सेक्टर-53, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान 2 कंगन, 1 गले का हार, 2 जोड़ी कान के कुण्डल (बाली), व 1 बाली कान की (सोने की) बरामद हुई है।

दिनांक 28.07.2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पर वादी डॉ० अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र उदयवीर सिंह निवासी-298, काशीनगर, लखीमपुर खीरी वर्तमान पता सी/102 सेक्टर-52 नोएडा ने दिनांक 27.07.2022 को अपने मकान से ज्वैलरी 2 कंगन, 1 गले का हार, 2 जोड़ी कान के कुण्डल (बाली), 1 बाली कान की (सोने की) चोरी होने की घटना के सम्बंध में मु०अ०सं० 274/2022 धारा 380 भादंवि पंजीकृत हुआ था। दौराने विवेचना थाना सेक्टर-24 पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण करते हुये वादी की गाड़ी चलाने वाले ड्राईवर/नौकर को चोरी किये गये सामान के साथ कंचन जंगा मार्किट सेक्टर 53 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

अंकित कुमार पुत्र पीताम्बर निवासी ग्राम गिझौड़, सेक्टर-53, नोएडा

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु०अ०सं० 274/2022 धारा 381/411 भा०दं०वि० थाना सेक्टर-24, नोएडा

बरामदगी का विवरण:

1.2 कंगन सोने के

2.1 गले का हार सोने का

3.2 जोड़ी कान के कुण्डल (बाली) सोने के

4.1 कान की बाली सोने की



2-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.07.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 002/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना इकोटेक-3 में वांछित अभियुक्त कमल पुत्र स्व0 प्रकाश निवासी-मौ0 प्रेमपुरी, कस्बा व थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के द्रोणाचार्य गेट के पास, कस्बा दनकौर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कमल शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना दनकौर व इकोटेक-3 में चोरी की सम्पत्ति बरामद होना, आर्म्स एक्ट व हत्या का प्रयास सम्बंधी अभियोग दर्ज है। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0 002/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना इकोटेक-3 में वांछित था जिसकी विवेचना थाना सूरजपुर से सम्पादित की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण:

कमल पुत्र स्व0 प्रकाश निवासी-मौ0 प्रेमपुरी, कस्बा व थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 200/2015 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 201/2015 धारा 411/414 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 202/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 105/2019 धारा 307 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 109/2019 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 6.मु0अ0सं0 002/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इकोटेक, गौतमबुद्धनगर।



3-थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30/07/2022 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 216/2022 धारा 302,201 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर में वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र वसारत निवासी आसिफाबाद चंदपुरा, थाना गुलावटी, बुलन्दशहर को थाना क्षेत्र के खेरली नहर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण:

दिनांक 03.06.2022 को वादी अनवर खान पुत्र तस्सुवर ग्राम मण्डपा, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर की पुत्री का पुत्र जुनैद पुत्र मारुफ उम्र 11 वर्ष निवासी कल्छिना, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद ग्राम मण्डपा आया हुआ था सांय 5.30 बजे जुनैद घर से बाहर खेलने गया था लेकिन काफी देर तक घर न आने के कारण जुनैद को तलाश किया गया तो ग्राम बाहर बम्बे मे रात्रि करीब 9.30 बजे उसका शव मिला था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 216/22 धारा 302,201 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त राशिद पुत्र वसारत निवासी आसिफाबाद चंदपुरा, थाना गुलावटी, बुलन्दशहर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 216/2022 धारा 302,201 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।



4-थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोरी व मोबाइल फोन चोरी/लूट की घटना करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/लूट के 03 मोबाइल फोन व 03 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 30.07.2022 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा वाहन चोरी व मोबाइल फोन चोरी/लूट की घटना करने वाले 02 अभियुक्त 1.सूरज थापा पुत्र छोटेलाल निवासी ई-73ए/30, संजय कॉलोनी गोकलपुर, थाना गोकुलपुरी, दिल्ली वर्तमान पता बी-6, सेक्टर-58, थाना सेक्टर-58, नोएडा 2.राहुल उर्फ लेफ्टी पुत्र मोती मण्डल निवासी ग्राम डी-10, ग्राम बिशनपुरा, थाना सेक्टर-58, नोएडा को थाना क्षेत्र के कोहली धर्म कांटा चौराहा, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/लूट के 03 मोबाइल फोन व 03 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त शातिर किस्म के चोर/लुटेरें हैं जो चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोबाइल चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

अभियुक्तों का विवरण:

1.सूरज थापा पुत्र छोटेलाल निवासी ई-73ए/30, संजय कॉलोनी गोकलपुर, थाना गोकुलपुरी, दिल्ली वर्तमान पता बी-6, सेक्टर-58, थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2.राहुल उर्फ लेफ्टी पुत्र मोती मण्डल निवासी ग्राम डी-10, ग्राम बिशनपुरा, थाना सेक्टर-58, नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1.मु0अ0सं0 362/22 धारा 411/414 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 264/22 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.चोरी/लूट के 03 मोबाइल फोन

2. 03 मोटरसाइकिल

